

Question Bank

B.Com Part- 1 (Honours) Paper- 2 Group D

Subject: Company Account

University Department of Commerce

And Management

B.R.A.B.U, Muzaffarpur

Multiple choice Question - (बहुविकल्पीय प्रश्न)

101. The final Accounts Include:- (अंतिम खाते में शामिल हैं)
- | | |
|--|--|
| a) Profit & Loss A/c
(लाभ और हानि खाता) | b) Balance Sheet
(बाहि खाता) |
| c) Both A & B
(क और ख दोनों) | d) None of these
(उपर्युक्त कोई नहीं) |
102. As the per company each a joint stock company has to prepare :- (कंपनी कानून के अंतर्गत संयुक्त स्टॉक कंपनी को तैयार करना है)
- | | |
|--|--|
| a) Trading A/c
(ट्रेडिंग खाता) | b) Manufacturing A/c
(निर्माण खाता) |
| c) P/L Appropriation A/c
(लाभ और हानि विनियोग खाता) | d) All of the above
(उपर्युक्त सभी) |
103. According to section 210 of company act 1956 explain the provision for final A/c under :- (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210 के तहत अंतिम खात के प्रावधान की व्याख्या करें।)
- | | |
|---|---|
| a) Schedule VI (Part II)
(अनुसूची VI (भाग II)) | b) Schedule VI (Part III)
(अनुसूची VI (भाग III)) |
| c) Schedule VI (Part VIII)
(अनुसूची VI (भाग VIII)) | d) Schedule VI (Part IX)
(अनुसूची VI (भाग IX)) |
104. A joint stock company is required to prepare its final A/c :- (संयुक्त स्टॉक कंपनी को अपना अंतिम खाता तैयार करना आवश्यक है)
- | | |
|--|--|
| a) At the end of financial year
(वित्तीय वर्ष के अंत में) | b) At the beginning of calender year
(कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में) |
| c) Both A & B
(क और ख दोनों) | d) All of these
(उपर्युक्त सभी) |
105. Trading A/c of joint stock company provide information about :- (एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के ट्रेडिंग खाते के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।)
- | | |
|---|---|
| a) Gross profit & loss
(सकल लाभ और हानि) | b) Net profit or loss
(शुद्ध लाभ और हानि) |
| c) profit & loss
(लाभ और हानि) | d) None of these
(उपर्युक्त में से कोई नहीं) |
106. In joint stock company section 202 describes/provides :- (संयुक्त स्टॉक कंपनी अनुभाग 202 में वर्णन/प्रदान करता है:)
- | | |
|--|---|
| a) Deals with preparation & presentation of final A/c
(अंतिम खाते की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है) | b) Prescribe 'form' & 'contains' of Balancesheet
& P/L A/c

(बैलेंस शीट और पी/एल अकाउंट के फॉर्म और सामग्री को निर्धारित करें) |
| b) For disclosure of certain details in Balance Sheet.
(बैलेंस शीट में कुछ विवरणों के प्रकटीकरण के लिए) | d) For the financial year of holding company & subsidiary

(होलडिंग कंपनी और सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष के लिए) |

125. Underwriting commission salary of Managing director are the example of :- (अभिगोपन कमिसन, मैनेजिंग संचालक का वेतन किसके उदाहरण है -)
- Expenses belonging wholly to cost incorporation period (समामेलन के बाद का व्यय)
 - Expenses belonging to pre incorporation period. (समामेलन के पूर्व का व्यय)
 - Fixed Variable charges (स्थायी का व्यय)
 - Variable Charges (परिवर्तनशील व्यय)
126. Necessity of Ascertaining profit or loss prior to and after incorporation :- (समामेलन के पूर्व व पश्चात् के लाभ या हानि निकालने की आवस्यता होती है।)
- provides accurate profit & loss (शुद्ध लाभ या हानि के ज्ञान के लिए)
 - provides uses of accurate profit (शुद्ध लाभ के प्रयोग के ज्ञान के लिए)
 - Uses of accurate losses (शुद्ध हानि के प्रयोग के लिए)
 - All of these (इनमें से सभी)
127. According to companies act 2013 which section, the ability to contract any company is obtain only after getting the certificate of amalgamation and certificate of commencement of business :- (कम्पनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार किसी भी कम्पनी को अनुबंध करने की योग्यता सामामेलन का प्रमाण पत्र एवं व्यवसाय चालू करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही प्राप्त होती है :-)
- Section 10 (धारा 10)
 - Section 11 (धारा 11)
 - Section 12 (धारा 12)
 - Section 13 (धारा 13)
128. Method of finding out profit or loss prior to or subsequent to incorporation are :- (समामेलन या कार्य प्रारंभ करने के पूर्व या बाद शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने की विधि है)
- Time method (समय के अनुसार)
 - Turn over method (बिक्री के अनुसार)
 - Time & turn over method (बिक्री तथा समय के अनुसार)
 - All of the above (इनमें से कोई नहीं)
129. In which account the amount of loss is opened if their is no goodwill A/c in the book of company :- (कम्पनी की पुस्तकों में ख्याति खाता न हो तो हानि की रकम से कौन सी खाता खोल दिया जाता है -)
- Balance Sheet (बही खाता)
 - Income & Expenditure A/c (आय और व्यय खाता)
 - Goodwill A/c (ख्याति खाता)
 - Reserve & Surplus A/c (आरक्षित और अधिशेष खाता)
130. In which account is the loss before amalgamation is debited :- (समामेलन के पूर्व के हानिको किस खाता में डेबिट किया जाता है-)
- Goodwill A/c (ख्याति खाता)
 - Suspense A/c (सन्देही खाता)
 - Profit & loss A/c (लाभ हानि खाता)
 - Receipt & payment A/c (प्राप्ति और भुगतान खाता)
131. What is declare as profit after amalgamation :- (समामेलन के पश्चात् वाले लाभ को क्या घोषित किया जाता है-)
- Divisible profit (विभाजन योग्य लाभ)
 - Dividend (लाभांश)
 - Interest (ब्याज)
 - Expenditure (खर्च)
132. Which of the following information is important for preparing the balance sheet after profit prior or post prior incorporation :- (समामेलन के पूर्व एवं पश्चात् की अवधि में बटवारा करने के बाद चिट्ठा बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सूचना महत्व पूर्ण है।-)
- Capital Reserve (फ़ंडी संचय)
 - Cash Balance (रोकड़ बाकी)
 - Both (a) and (b) ('अ' और 'ब' दोनों)
 - None of these (इनमें से कोई नहीं)
133. Fixed distribution expenses are divided according to - (स्थायी वितरण व्यय को किसके अनुसार बाँटा जाता है-)

- | | |
|---|--|
| a) Pooling of Interest Method
(हितों का सूहीकरण) | b) Purchase Method
(क्रय विधि) |
| c) consolidated balance sheet Method
(संयुक्त चिट्ठा विधि) | d) None of these
(उपर्युक्त में कोई नहीं) |

153. To which account the different between the purchase consideration and share capital of transferor company will be transferred under pooling of interests method? (हितों का समूहीकरण विधि में क्रय प्रतिफल और हस्तान्तरक कम्पनी की अंश पूँजी के अन्तर को किस खातों में हस्तान्तरित किया जायेगा?)

- | | |
|---|--|
| a) Amalgamation on adjustment A/c
(एकीकरण संयोजन खाता) | b) Goodwill or capital Reserve
(ख्याति अथवा पूँजी संचिति) |
| c) G/R or P/L statement
(सामान्य संचिति अथवा लाभ-हानि विवरण) | d) None of above
(उपर्युक्त में से कोई नहीं) |

154. What will be recorded in the books of transferee company under purchase method ? (क्रय विधि में हस्तान्तरी कम्पनी अपनी पुस्तकों में किसका लेख करेगी?)

- | | |
|---|--|
| a) All assets and liabilities of transferor company
(हस्तान्तरक कम्पनी की सभी सम्पत्तियों व दायित्वों का) | b) All assets, liabilities and reserves of transferor company
(हस्तान्तरक कम्पनी की सभी सम्पत्तियों, दायित्वों और संचयों का) |
| c) Assets and liabilities acquired by transferee
(हस्तान्तरक कम्पनी की अधिग्रहीत सम्पत्तियों व दायित्वों का) | d) Assets and liabilities acquired transferee company and statutory reserves
(हस्तान्तरक कम्पनी की अधिग्रहीत सम्पत्तियों व दायित्वों तथा वैधानिक संचयों का) |

155. (एकीकरण संयोजन खातों को हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में किसका लेखा करने के लिए खोला जाता है ?)

- | | |
|---|---|
| a) Non-statutory reserve of transferor Co.
(हस्तान्तरक कम्पनी के गैर-वैधानिक संचयों) | b) Statutory reserve of transferor Co.
(हस्तान्तरक कम्पनी के सभी संचयों) |
| c) All reserves of transferor Co.
(हस्तान्तरक कम्पनी के सभी संचयों) | d) Assets & liabilities acquired by transferee Co. & statutory reserves
(हस्तान्तरक कम्पनी की अधिग्रहीत सम्पत्तियों व दायित्वों तथा वैधानिक संचयों का) |

156. Accounting for amalgamation of companies is done a per. (कम्पनी के एकीकरण से सम्बन्धित लेखांकन किया जाता है)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) As- 4 (As-4 के अनुसार) | b) As- 10 (As-10 के अनुसार) |
| c) As- 14 (As-14 के अनुसार) | d) As- 20 (As-20 के अनुसार) |

157. From when accounting for amalgamation is regulated by As- 14. (एकीकरण की लेखाविधि AS- 4 कब से संचालित होती है:-)

- | | |
|---------|---------|
| a) 1930 | b) 1929 |
| c) 1995 | d) 1999 |

158. Which company is known under amalgamation, vendor company is called transferor company while purchasing company. (एकीकरण के अन्तर्गत विक्रेता कम्पनी को हस्तान्तरक कम्पनी तथा क्रेता कम्पनी को क्या कहा जाता है?)

- | | |
|---|---|
| a) Transferee company (हस्तान्तरक कम्पनी) | b) Public company (सार्वजनिक कम्पनी) |
| c) Private company (निजी कम्पनी) | d) One person company (एक व्यक्ति कम्पनी) |

159. On what value the shares are valued, In case of amalgamation in nature of merger . (विलय की प्रकृति में एकीकरण में अंशों को किस मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है?)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a) Called-up value (कॉल-अप मूल्य) | b) Paid up value (चुकता मूल्य) |
| c) Subscribe value (सदस्यता मूल्य) | d) Market value (बाजार मूल्य) |

160. On which price fraction of share are valued ? (अंशों के खण्डों का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है?)

170. When a company buys another company under an agreement called :- (जब एक कम्पनी किसी समझौते के अन्तर्गत किसी दूसरी विद्यमान कम्पनी का क्रय किया जाता है तो उसे :-)
- a) Absorption (अन्तर्लयन) b) Reconstruction (पुननिर्माण)
c) Both a & b (उपर्युक्त दोनों) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
171. A state under which either two or more companies are joined so as to form a third entity are :- (वह स्थिति जिसके अन्तर्गत दो कम्पनियों आपस में मिलकर एक किसी तीसरी कम्पनी की स्थापना करे उसे)
- a) Amalgamation (एकीकरण) b) Absorption (संविलयन)
c) Reconstruction (पुननिर्माण) d) Alliances (संयोजन)
172. Advantages of Amalgamation are :- (एकीकरण के लाभ हैं:-)
- a) easy control (नियन्त्रण में सुविधा) b) Services of specialists (विशेषज्ञों की सेवाएं)
c) easy distribution (वितरण में सुविधा) d) all of these (उपर्युक्त सभी)
173. Disadvantages of Amalgamation are :- (एकीकरण के हानि हैं :-)
- a) easy distribution (वितरण में सुविधा) b) economy (मितव्ययिता)
c) easy control (नियन्त्रण में सुविधा) d) over capitalisation (अति-पूँजीकरण)
174. How many types of amalgamation are there according to As-14 ? (AS-14 के अनुसार एकीकरण के कितने प्रकार हैं)
- a) Four (चार) b) Six (छः)
c) Two (दो) d) Eight (आठ)
175. Technique of amalgamation are :- (एकीकरण के तकनिक हैं)
- a) Horizontal form (क्षैतिक स्वरूप) b) Purchase consideration (क्रय प्रतिफल)
c) Vertical form (लम्बित स्वरूप) d) Conglomerative form (पिण्डीय स्वरूप)
176. For transferring assets taken over by transferee company :- (हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा ली गई सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के लिए :-)
- a) Realisation A/c ----- Dr
To sundry Assets A/c b) Sundry Assets A/c ----- Dr
To realisation A/c
c) Both A & B (अ और ब दोनों) d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
177. Necessary ledger A/c in the books of Transferor Co. (हस्तान्तरक की पुस्तकों में आवश्यक खाते हैं)
- a) 3 b) 2
c) 5 d) 6
178. The following reserves and funds are not mentioned in the balance sheet of transferee company are :- (निम्नांकित संचय एवं कोषों का उल्लेख हस्तांतरी कंपनी के चिट्ठे में नहीं किया जाता है।)
- a) General Reserve (सामान्य संचय) b) Insurance fund (बीमा कोष)
c) contingency fund (सांयोगिक कोष) d) All of these (इनमें से सभी)
179. The following are shown on the liability side in the balance sheet of transferee company :- (निम्नांकित कोषों को हस्तांतरी कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है)
- a) General reserve (सामान्य संचय) b) Provident fund (भविष्य निधि)
c) Contingency fund (सांयोगिक कोष) d) All of these (बीमा कोष)
180. What is arises with the respect of amalgamation :- (एकीकरण के सम्बन्ध में क्या उत्पन्न होता है)

(हितों का समूहीकरण विधि)

(खण्डित अंश प्रमाण—पत्र निर्गत कर)

c) By cash (रोकड़ द्वारा)

d) By Purchase Method (क्रय विधि द्वारा)

191. The following items and profits will not be include in the liability case :- (निम्नलिखित संचितियों, कोषों एवं लाभों को दायित्व में शामिल नहीं किया जायेगा।)

a) Loan (ऋण)

b) Share (अंश)

c) General Reserve (सामान संचय)

d) Purchase (क्रय)

192. Form of Amalgamation are :- (एकीकरण के स्वरूप हैं)

a) Horizontal form (क्षैतिक स्वरूप)

b) Vertical form (लम्बित स्वरूप)

c) Conglomerative form (पिण्डीय स्वरूप)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

193. When the transferee company will continue the business of the transferee company :- (हस्तान्तरी कम्पनी कब हस्तान्तरक कम्पनी के व्यवसाय को चालू रखेगी)

a) After amalgamation
(एकीकरण के बाद)

b) Before amalgamation
(एकीकरण के पहले)

c) With amalgamation
(एकीकरण के साथ)

d) None of these
(इनमें से कोई नहीं)

194. Objectives of amalgamation are :- (एकीकरण के उद्देश्य हैं)

a) Cover-capitalisation (अति-पूँजीकरण)

b) Monopoly situation (एकाधिकारी स्थिति)

c) Industrial dispute (औद्योगिक कलह)

d) Economy (मितव्ययिता)

195. Important terms defined in As- 14 is. (लेखांकन मानक- 14 में परिभाषित महत्वपूर्ण शब्द है।)

a) Amalgamation (एकीकरण)

b) Reserve (संचय)

c) Fair value (उचित मूल्य)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

196. Important terms defined in As- 14 are : (लेखांकन मानक 14 में परिभाषित महत्वपूर्ण शब्द)

a) 4

b) 6

c) 7

d) 9

197. Under which As amalgamation falls :- (किस लेखांक मानक के अन्तर्गत एकीकरण आता)

a) As- 14

b) As- 16

c) As- 21

d) As- 24

198. An existing company purchase the business of another existing company . (एक विद्यमान कम्पनी दूसरी विद्यमान कम्पनी के व्यवसाय का क्रय करती है)

a) Amalgamation (एकीकरण)

b) Reconstruction (पुनर्निर्माण)

c) Absorption (संविलयन)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

199. Today's era is :- (आज का युग है)

a) Competition (प्रतिस्पर्द्धा)

b) Modern (आधुनिक)

c) Traditional (परम्परागत)

d) All of these (उपर्युक्त सभी)

200. How many views are there of the meaning of the word amalgamation :- (एकीकरण शब्द का अर्थ के कितने दृष्टिकोण हैं)

211. A company intends to liquidate voluntarily, it can initiate the & liquidation proceeding under section _____ of insolvency and bankruptcy code, 2016 :- (एक कम्पनी जो स्वेच्छा से समापन करना चाहती है वह Insolvency and bankruptcy code, 2016 की धारा के अन्तर्गत समापन की कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है।)
- a) 80 b) 65
c) 60 d) 59
212. The liability of a share holder is restricted to _____ of the share hold by him. (एक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों की तक ही सीमित होता है।)
- a) total value (कुल रकम) b) unpaid value (अदत्त रकम)
c) half value (अर्ध रकम) d) share holder value (अंशधारी रकम)
213. In case of liquidation under the supervision of the court, a liquidator is appointed by _____ (न्यायालय की देख रेख के अन्तर्गत समापन की स्थिति में समापक की नियुक्ति द्वारा की जाती है।)
- a) members (सदस्यों) b) court (न्यायालय)
c) company (कम्पनी) d) dividend (लाभांश)
214. If a company is not solvent, the debenture holders shall be paid interest upto the date of _____. (यदि कम्पनी शोधप्रसी नहीं है तो ऋणपत्र धारकों को की तिथि तक का ब्याज दिया जायेगा।)
- a) payment (भुगतान) b) dissolution (विघन)
c) liquidation (समापन) d) assets (सम्पत्ति)
215. Some creditors out of unsecured creditors enjoy under law, the right to receive payment in priority of other. such creditors are called _____ creditors. (कुछ असुरक्षित लेनदारों को कानून के अन्तर्गत अन्य असुरक्षित लेनदारों की तुलना में पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन्हें लेनदार कहा जाता है—)
- a) contributories (धनदाताओं) b) liquidators (निस्तारक)
c) secured (सुरक्षित) d) preferential (पूर्वाधिकार)
216. A tax payable by a company is _____ creditors in case of its liquidation. (एक कम्पनी द्वारा सरकार को देय कर कम्पनी में समापन की स्थिति में लेनदार है।)
- a) preferential (पूर्वाधिकार) b) secured (सुरक्षित)
c) contributories (धनदाताओं) d) liquidators (निस्तारक)
217. Under Insolvency & Bankruptcy code 2016. The resolution process of insolvency of a company is to be completed within which period ? (दिवाला कोड, 2016 के अन्तर्गत कम्पनियों की दिवाला सम्बंधी प्रस्ताव प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए?)
- a) 250 days + 100 days (250 दिन + 100 दिन) b) 180 days + 30 days (180 दिन + 30 दिन)
c) 180 days + 90 days (180 दिन + 90 दिन) d) 180 days + 180 days (180 दिन + 180 दिन)
218. A creditor of Rs. 10, 000 has a security having book value of Rs. 15, 000 but only Rs. 12,000 is realised from its sale. What amount will be returned by him to the liquidator? (₹ 10,000 के एक लेनदार के पास जो प्रतिभूति है, उसका पुस्तक मूल्य, ₹ 25,000 है लेकिन उसे बेचने पर ₹ 12,000 प्राप्त होते हैं। वह लेनदार समापक को कितनी राशि वापस करेगा ?)
- a) Zero (शून्य) b) Rs. 12,000 (₹ 12,000)
c) Rs. 5,000 (₹ 5,000) d) Rs. 2,000 (₹ 2,000)
219. In case of liquidation of company, any amount payable under employees provident fund will be ? (कम्पनी के समापन की स्थिति में कर्मचारी के प्रॉविडेंट फंड के अन्तर्गत देय राशि समापक के लिए क्या होगी ?)
- a) Secured creditors (सुरक्षित लेनदार) b) unsecured creditors (असुरक्षित लेनदार)
c) preferential creditors (पूर्वाधिकार लेनदार) d) preference share holders (पूर्वाधिकार अंशधारी)

220. Which of the following is not a preferential creditor ? (निम्नलिखित में से कौन पूर्वाधिकार लेनदार नहीं है) ?
- | | |
|---|---|
| a) Dividend payable to preference share holders
(पूर्वाधिकार अंशधारियों को देय लाभांश) | b) Amount payable under employees provident fund
(कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फण्ड के अन्तर्गत देय राशि) |
| c) Tax payable to government
(सरकार को देय कर) | d) Amount of compensation payable to employess
(कर्मचारी को देय क्षतिपूर्ति की राशि) |
221. On liquidation of a company, first payment in made under insolvency resolution process costs and liquidation costs in respect of :- (कम्पनी के समापन पर दिवाला कोड के अन्तर्गत सबसे पहले भुगतान किया जाता है।)
- | | |
|--|--|
| a) liquidator's remuneration
(निस्तारक के परिश्रमिक का) | b) insolvency resolution process costs and liquidation costs
(दिवाला संकल्प प्रक्रिया लागत तथा समापन लागते) |
| c) preferential creditors (पूर्वाधिकारी लेनदारों का) | d) liquidation expenses (समापन के व्ययों का) |
222. According to whom, "Is the law on winding up of a company by which its life comes to and end its assets are used for benefits of its creditors and members. (किसके अनुसार " एक कम्पनी का समापन वह विधि है जिसके द्वारा इसका जीवन समाप्त होता है और इसकी सम्पत्तियों का प्रयोग इसके लेनदारों तथा सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है।)
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a) Lucas paciali (लुकास पेशीयोली) | b) Balti Boi (बाल्टी बॉय) |
| c) Gower (गोवर्) | d) Adam Smith (ऐडम स्मिथ) |
223. Which word is used for both individual and local organisation:- (किस शब्द का प्रयोग व्यक्ति एवं स्थान, या संगठन दोनों के लिए किया जाता है-)
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) liquidator (निस्तारक) | b) Accountant (लेखाकार) |
| c) Insolvency (दिवाला) | d) Creditor (लेनदार) |
224. Insolvency is a situation and Bankruptcy is _____. (दिवाला एक स्थिति और दिवालियापन उसका है)
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) efficiency (क्षमता) | b) opportunity (अवसर) |
| c) Authority (अधिकार) | d) Result (परिणाम) |
225. Process ding for winding up can be initiated by the person of or oraganisation:- (निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा समापन हेतु कार्यवाहियां प्रारंभ कि जा सकती है।)
- | | |
|--|---|
| a) Regulatory bodies (नियामक निकाय) | b) Director of a company (कम्पनी के संचालक) |
| c) Shareholders of a company (कम्पनी के अंशधारी) | d) All of these (इनमें सभी) |
226. Mode of liquidation of company are :- (कम्पनी के समापण की विधियाँ है-)
- | | |
|-------------|------------|
| a) 2 (दो) | b) 4 (चार) |
| c) 5 (पाँच) | d) 3 (तीन) |
227. Circumstance of winding up by tribunal are :- (न्याय अधिकरण द्वारा समापन की दशाए हो सकती है-)
- | | |
|---|--|
| a) Inability to pay debt
(ऋण के भुगतान में असमर्थता) | b) Donate excessiely
(अत्यधिक दान करना) |
| c) rising inflation
(महंगाई बढ़ना) | d) increasing the no. of creditors
(लेनदारों की संख्या बढ़ना) |
228. When was SAFAESI Act implemented :- (SARFAESI Act कब लागू किया गया था -)
- | | |
|----------------|----------------|
| a) 2000 (2000) | b) 2001 (2001) |
| c) 2002 (2002) | d) 2003 (2003) |

229. Distinguishing features of code are :- (संहिता की मुख्य विशेषताएं हैं:-)
- | | |
|--|---|
| a) Insolvency professionals
(दिवाला पेशावर) | b) Information utilities
(सूचना ईकाइया) |
| c) Insolvency professional agencies
(दिवाला पेशेवर एजेन्सिया) | d) clarity in process
(प्रक्रिया में पारदर्शीता) |
230. Which of the following are acts for recovery of loans due to bank and financial institution. (निम्नलिखित में से बैंक एवं वित्त संस्थानों को दे ऋणों की वसुली अधिनियम है-)
- | | |
|----------------|----------------|
| a) 1992 (1992) | b) 1993 (1993) |
| c) 1994 (1994) | d) 1999 (1999) |
231. Who can apply for corporate insolvency resolution process. (निगमीय दिवाला संकल्प प्रक्रिया के लिए कौन आवेदन दे सकता है-)
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) share holder (अंशधारी) | b) debenture holder (ऋण धारी) |
| c) financial creditor (वित्त लेनदार) | d) liquidator (निस्तारक) |
232. According to which section of insolvency and bankruptcy court 2016 the liquidators has been told his right and duties. (Insolvency and bankruptcy 2016 के किस धारा के अनुसार निस्तारक के अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं।)
- | | |
|------------|------------|
| a) 35 (35) | b) 45 (45) |
| c) 25 (25) | d) 55 (55) |
233. Which of the following is including in liquidation estate assets as per section '36' (3) ? (धारा 36 (3) के अनुसार liquidation estate assets निम्न में से कौन शामिल है-)
- | | |
|--|---|
| a) Tangible assets (मूर्त सम्पत्तियाँ) | b) Intangible assets (अमूर्त सम्पत्तियाँ) |
| c) personal assets (निजी सम्पत्तियाँ) | d) A and B both (अ और ब दोनों) |
234. When are uses of worker paid in process of liquidation :- (समापन होने की प्रक्रिया में श्रमिकों का बकाया कब दिया जाता है-)
- | | |
|---|-------------------------------------|
| a) before 24 months (पूर्व के 24 माह में) | b) under 6 months (6 माह के भीतर) |
| c) before 6 months (पूर्व के 6 माह में) | d) under 24 months (24 माह के भीतर) |
235. The first item in order of payment to be made by liquidator is :- (समापन द्वारा किए जाने वाले भुगतान की लेख परीक्षा में पहली वस्तु है)
- | | |
|---|---|
| a) Secured creditor (सुरक्षित लेनदार) | b) preferential creditors (अधिमान्य लेनदार) |
| c) liquidation expenses (परिसमापन व्यय) | d) preferential creditor (अधिमान्य लेनदार) |
236. Liquidators statement of receipts & payment is known as :- (समापन प्राप्ति और भुगतान के विवरण के रूप में जाना जाता है)
- | | |
|--|--|
| a) cash flow statement
(रोकड़ प्रवाह विवरण) | b) cash book
(बही खाता) |
| c) deficiency account
(कमी खाता) | d) liquidators final statement of A/c
(समापन खाते का अंतिम विवरण) |
237. A contributory is :- (अंशदायी है-)
- | | |
|--|--|
| a) A creditor
(एक लेनदार) | b) A shareholder
(एक अंशधारी) |
| c) A debenture holder
(एक डिबेंचर धारक) | d) A convertible debenture holder
(एक परिवर्तनीय ऋण धारक) |
238. Salaries due to clerk is preferential for a period not exceeding:- (क्लर्क के वेतन अधिक से अधिक अवधि के लिए अधिमान्य है:-)

- a) Two months (दो माह) b) Three months (तीन माह)
 c) Four months (चार माह) d) five months (पाँच माह)
239. Maximum _____ can be treated as preferential salary & wages. (अधिकतम को अधिमान्य वेतन और मजदूरी के रूप में माना जाता है।)
- a) 20,000 (20,000) b) 25,000 (25,000)
 c) 30,000 (30,000) d) 40,000 (40,000)
240. Share allotment is a (शेयर आवंटन है—)
- a) Personal A/c (व्यक्तिगत खाता) b) Real A/c (वास्तविक खाता)
 c) Impersonal A/c (अव्यक्तिगत खाता) d) Nominal A/c (नाममात्र खाता)
241. Premium received on issue of share A/c is shown on :- ()
- a) Asset side of B/S (B/S के परिसंपत्ति पक्ष में) b) Liabilities side of B/S (B/S के देयता पक्ष में)
 c) Credit side of P/L A/c (Cr. side of P/L A/c) d) Debit side of P/L A/c (P&L A/c के Dr. side)
242. Voluntary winding up :- (स्वैच्छिक समापन के कारण है—)
- a) If period fixed for the company is expired (यदि कम्पनी के लिए अवधि समाप्त हो गई हो) b) If company passes a special resolution (अगर कम्पनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है)
 c) Members voluntary winding up is applicab to solvent company (सदस्य स्वैच्छिक समापन कम्पनी को हल करने के लिए लाभ है) d) All of these (उपर्युक्त सभी)
243. Compulsory winding up :- (अनिवार्य समापन के कारण है)
- a) If a company unable to pay its debt (यदि कोई कम्पनी अपने रकम का भुगतान करने में असमर्थ है) b) If the no. of member of Co. reduce below statutory limit (यदि कम्पनी के सदस्य की संख्या वैधानिक समय से कम हो जाती है)
 c) If a Co. does Commence its bass with in a year (यदि कंपनी एक वर्ष के भीतर अपना व्यवसाय शुरू करता है) d) All of these (उपर्युक्त सभी)
244. Liquidator is appointed by :- (परिसमापक द्वारा नियुक्त किया जाता है।)
- a) In case of compulsory winding up (अनिवार्य समापन के मामले में) b) Member voluntarily winding up (सदस्य स्वैच्छिक समापन)
 c) In case of creditor voluntarily winding up (लेनदार स्वैच्छिक समापन) d) All of these (उपर्युक्त सभी)
245. Present members are included in _____ list of contributories:-
- a) A list (ए सूची) b) B list (बी सूची)
 c) C list (सी सूची) d) D list (डी सूची)
246. Past member are included in _____ list of contributories.
- a) A list (ए सूची) b) B list (बी सूची)
 c) C list (सी सूची) d) D list (डी सूची)
247. Creditors voluntary winding up applies to :- (लेनदार स्वैच्छिक समापन शामिल है)
- a) Insolvent company (दिवालिया कम्पनी) b) solvent company (विलायक कम्पनी)
 c) public company (सार्वजनिक कम्पनी) d) private company (निजी कम्पनी)

248. At the time of liquidation the first payment done to :- ()
- | | |
|--|---|
| a) liquidation exp. (परिसमापन व्यय) | b) Secured creditors (सुरक्षित लेनदार) |
| c) Preferential creditor (वरीयता लेनदार) | d) unsecured creditors (असुरक्षित लेनदार) |
249. Preference share are treated as :- (वरीयता अंश को माना जाता है)
- | | |
|--|---|
| a) liquidation exp. (परिसमापन व्यय) | b) Secured creditors (सुरक्षित कम्पनी) |
| c) Preference creditor (वरीयता लेनदार) | d) unsecured creditors (असुरक्षित लेनदार) |
250. A company being a creation of law cannot die a :- (कानून से बनने वाली कंपनी कौन सी मौत नहीं मर सकती)
- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a) heart attack (दिल का दौर) | b) artificial death (अस्वाभाविक मौत) |
| c) accident (दुर्घटना) | d) Natural death (स्वाभाविक मौत) |
251. At the time of amalgamation preliminary expenses are transferred to : (समामेलन के समय प्रारंभिक व्यय को स्थानांतरित किया जाता है।)
- | | |
|--|--|
| a) Account of Transferee Company
(ट्रांसफररी कंपनी का खाता) | b) Realisation Account
(वसूली खाता) |
| c) Shareholders's Account (शेयरधारकों का खाता) | d) Debentureholder's Account (डिबेंचरधारकों का खाता) |
252. In case of amalgamation accumulated profits include: (समामेलन के मामले में संचित लाभ में शामिल है।)
- | | |
|---|---|
| a) Public Deposit (सार्वजनिक जमा) | b) Employee provident fund (कर्मचारी भविष्य निधि) |
| c) Provision for taxes (करों के लिए प्रावधान) | d) None of these (इनमें से कोई नहीं) |
253. The formula to find out goodwill is : (सद्भावना ज्ञात करने का सूत्र है :)
- | | |
|---|---|
| a) Value of Net-Assets- purchase price
(शुद्ध संपत्ति का मूल्य-खरीद मूल्य) | b) Purchase price-value of Net Assets
(खरीद मूल्य-निवल संपत्ति का मूल्य) |
| c) Value of Assets-Purchase price
(संपत्ति का मूल्य-खरीद मूल्य) | d) Purchase Price-value of Liability
(खरीद मूल्य-देयता का मूल्य) |
254. When the expenses of liquidation are borne by the vendor company, the vendor company debits:
(जब परिसमापन का खर्च विक्रेता कंपनी द्वारा वहन किया जाता है, तो विक्रेता कंपनी डेबिट करती है।)
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a) Realisation Account (वसूली खाता) | b) Bank Account (बैंक खाता) |
| c) Goodwill Account (सद्भावना खाता) | d) All the above (उपरोक्त सभी) |
255. When the expenses of liquidation are borne by the purchasing company, the purchasing company debits:
(जब परिसमापन का खर्च क्रय कंपनी, क्रय कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।)
- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) Realisation Account (वसूली खाता) | b) Bank Account (विक्रेता का कंपनी खाता) |
| c) Bank Account (बैंक खाता) | d) Goodwill Account (सद्भावना खाता) |
256. Value of net assets is subtracted from accepted purchase consideration. The balance amount will be:
(शुद्ध संपत्ति का मूल्य स्वीकृत खरीद प्रतिफल से घटाया जाता है। शेष राशि होगी :)
- | | |
|-----------------------------------|--|
| a) Purchase Surplus (खरीद अधिशेष) | b) Value of Goodwill (सद्भावना का मूल्य) |
| c) Business Fund (विजनेस फंड) | d) Capital Surplus (पूँजी अधिशेष) |
257. What will be recorded in the books of transferee company under purchase method ? (क्रय पद्धति के अंतर्गत अंतरिती कंपनी की पुस्तकों में क्या दर्ज होगा?)
- | | |
|---|--|
| a) All assets and liabilities of transferor company
(हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी संपत्तियाँ और देनदारियाँ) | b) All assets, liabilities and reserves of transferor company
(हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी संपत्तियाँ, देनदारियाँ और भंडार) |
|---|--|

- c) Assets and liabilities acquired by transferee company d) Assets and liabilities acquired by transferee company and statutory reserves.
(अंतरिती कंपनी द्वारा अर्जित संपत्ति और देनदारिया) (ट्रांसफररी कंपनी और वैधानिक भंडार द्वारा अर्जित संपत्ति और देनदारियों)
258. To which account the difference between the purchase price (consideration) and share capital of the transferor company should be adjusted under the pooling of interests method: (किस खाते में खरीद मूल्य (प्रतिफल) और शेयर पूंजी के बीच का अंतर अंतरणकर्ता कंपनी को हितों की पूलिंग पद्धति के तहत समायोजित किया जाना चाहिए:)
- a) Goodwill or capital reserve (सद्दावना या पूंजी आरक्षित) b) General Reserve (सामान्य रिजर्व)
- c) Amalgamation Adjustment Account (समामेलन समायोजन खाता) d) Other liabilities (अन्य देनदारियाँ)
259. Under which head of balance sheet Amalgamation Adjustment Account is shown: (बैलेंस शीट के किस शीर्ष के तहत समामेलन समायोजन खाता दिखाया गया है:)
- a) On Assets side-Misc. Exp. (संपत्ति पक्ष पर – विविध) b) On Assets side- current Assets (संपत्ति पक्ष पर – वर्तमान सम्पत्ति)
- c) On Liabilities side- Current Liabilities (देयता पक्ष पर – वर्तमान देयताएं) d) On Liabilities side- Reserves and Surplus (देयता पक्ष पर – रिजर्व और अधिशेष)
260. Purchased assets Rs. 15,00,000. Purchased liabilities Rs. 1,00,000. Purchase Consideration Rs. 15,50,000. Goodwill/ Capital reserve will be: (खरीदी गई संपत्ति रु 15,00,000। खरीदी गई देनदारियां रु 1,00,000। खरीद विचार रु 15,50,000, सद्दावना/पूंजीगत आरक्षित होगा :)
- a) Rs. 14,00,000 Goodwill (रु 14,00,000 सद्दावना) b) Rs. 50,000 Capital Reserve (रु 50,000 पूंजी आरक्षित)
- c) Rs. 1,50,000 Goodwill (रु 1,50,000 सद्दावना) d) Rs. 50, 000 Goodwill (रु 50,000 सद्दावना)
261. Given: Goodwill Rs. 37,000, Fixed Assets Rs. 45,000; Current Assets Rs. 35,000, Statement of profit and Loss Rs. 30,000; Creditors Rs. 40,000; share capital of the Company Rs. 10,000, Rs. 10 per share, value of share Rs. 7 per share. What will be Purchase Consideration ? (दिया गया सद्दावना रु 37,000, अचल संपत्ति रु 45,000, वर्तमान संपत्ति रु 35,000, लाभ का विवरण और हानि रु 30,000, लेनदार रु 40,000, कंपनी का शेयर पूंजी रु 10,000, रु 10 प्रति शेयर, मूल्य शेयर रु 7 प्रति शेयर। खरीद विचार क्या होगा ?)
- a) Rs. 1,10,000 (रु 1,10,000) b) Rs. 70, 000 (रु 70,000)
- c) Rs. 40,000 (रु 40,000) d) Rs. 1,27,000 (रु 1,27,000)
262. The meaning of absorption is : (अवशोषण का अर्थ है:)
- a) To absorb another company by existing company (मौजूदा कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी को अवशोषित करने के लिए) b) After liquidation to two companies making new company (नई कंपनी बनाने वाली दो कंपनियों के परिसमापन के बाद)
- c) To improve economic situation by existing company (मौजूदा कंपनी द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए) d) To purchase an other company by a company (एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए)
263. When one company goes in liquidation and a new company is formed to takeover the business of the company which goes in liquidation, this is called : (जब एक कंपनी परिसमापन में जाती है, और एक नई कंपनी का गठन होता है जो व्यवसाय का अधिग्रहण करती है कंपनी जो परिसमापन में जाती है, इसे कहा जाता है:)
- a) Amalgamation (समामेलन) b) Absorption (अवशोषण)
- c) External Reconstruction (बाहरी पुनर्निर्माण) d) Internal Reconstruction (आंतरिक पुनर्निर्माण)
264. In internal reconstruction: (आंतरिक पुनर्निर्माण में :)
- a) No company goes into liquidation (कोई कंपनी परिसमापन में नहीं जाती है) b) Only one company goes into liquidation (केवल एक कंपनी परिसमापन में जाती है)
- c) Two or more companies are liquidated d) One or more companies go into liquidation

(दो या दो से अधिक कंपनियों का परिसमापन किया जाता है)

(एक या अधिक कंपनियां परिसमापन में जाती हैं)

265. Reconstruction of a company means : (एक कंपनी के पुनर्निर्माण का अर्थ है:)

- | | |
|---|--|
| a) Internal change of the company
(कंपनी का आंतरिक परिवर्तन) | b) External change of the company
(कंपनी का बाहरी परिवर्तन) |
| c) None of the above
(उपरोक्त में कोई नहीं) | d) Both A and B
(अ और ब दोनों) |

266. Capital reduction requires the permission of : (पूंजी कटौती की अनुमति की आवश्यकता है:)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a) Company Law Board (कंपनी लॉ बोर्ड) | b) Government (सरकार) |
| c) Court (कोर्ट) | d) All of the above (उपरोक्त सभी) |

267. The balance of capital reduction is transferred to : (पूंजी में कमी का संतुलन स्थानांतरित किया जाता है:)

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) General Reserve (जनरल रिजर्व) | b) Reserve Fund (रिजर्व फंड) |
| c) Capital Reserve (कैपिटल रिजर्व) | d) Profit and Loss A/c (लाभ और हानि खाता) |

268. The characteristic of internal reconstruction is : (आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता है:)

- | | |
|---|---|
| a) Liquidation of companies
(कंपनियों का परिसमापन) | b) Liquidation of one company
(एक कंपनी का परिसमापन) |
| c) Change in capital structure
(पूंजी संरचना में परिवर्तन) | d) Absorption
(अवशोषण) |

269. In case of internal reconstruction the existing company will be (आंतरिक पुनर्निर्माण के मामले में मौजूदा कंपनी होगी)

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a) Liquidated (परिसमापन) | b) Amalgamated (समामेलित) |
| c) Absorbed (अवशोषित) | d) Retained (बनाए रखा) |

270. When there is no liquidation and one formation, it is known as (जब कोई परिसमापन और एक गठन नहीं होता है, तो इसे के रूप में जाना जाता है।)

- | | |
|---|--|
| a) Amalgamation (समामेलन) | b) absorption (अवशोषण) |
| c) External Reconstruction (बाहरी पुनर्निर्माण) | d) Internal Reconstruction (आंतरिक पुनर्निर्माण) |

271. If total value of net assets acquired by the company is less than the purchase consideration, the difference is: (यदि कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध संपत्ति का कुल मूल्य खरीद प्रतिफल से कम है, तो अंतर है:)

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Secret Reserve (गुप्त रिजर्व) | b) Goodwill (सद्भावना) |
| c) Capital Reserve (कैपिटल रिजर्व) | d) General Reserve (सामान्य रिजर्व) |

272. Resolution to change share capital must be passed in : (शेयर बदलने का संकल्प पूंजी को पारित किया जाना चाहिए :)

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) General Meeting (आम बैठक) | b) Extraordinary Meeting (असाधारण बैठक) |
| c) Special Meeting (विशेष बैठक) | d) Emergency Meeting (आपातकालीन बैठक) |

273. Right to buy Right share is to : (राइट शेयर खरीदने का अधिकार है:)

- | | |
|--|---|
| a) Preference Shareholder's
(वरीयता शेयरधारक) | b) Equity Share holders
(इक्विटी शेयरधारक) |
| c) Both A and B
(दोनों अ और ब) | d) Not to both
(दोनों के लिए नहीं) |

274. It is necessary to give notice to convert shares into stock within : (शेयरों का स्टॉक में बदला जाना है:)

- a) 15 days (15 दिन) b) One month (एक महिना)
c) Two months (दो महिने) d) 45 days (45 दिन)

275. A new account is opened on application of Capital Reduction Scheme, that account is : (पूजी योजना के आवेदन पर एक नया खाता खोला जाता है, वह खाता है:)

- a) P & L Adjustment A/c (पी एंड एल समायोजन खाता) b) Capital Reduction A/c (पूजी कटौती खाता)
c) Capital Surplus A/c (पूजी अधिशेष खाता) d) Capital Realisation A/c (पूजी प्राप्ति खाता)

276. Arrear of dividend on Cumulative Preference Shares is : (संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश का बकाया है:)

- a) Current Liability (वर्तमान देयता) b) Contingent Liability (आकस्मिक देयता)
c) Provision (प्रावधान) d) Reserve and Surplus (रिजर्व और अधिशेष)

277. An item to be credited in capital reduction Account is: (पूजीगत कटौती खाते में जमा की जाने वाली एक मद है:)

- a) Goodwill (सद्भावना) b) Preliminary Expenses (प्रारंभिक व्यय)
c) Reduction in Value of Assets (संपत्ति का मूल्य में कमी) d) Increment in Value of Assets (संपत्ति का मूल्य में वृद्धि)

278. The part of share capital, which can be called only at liquidation of company, is called : (शेयर पूजी का वह भाग, जिसे केवल कंपनी के परिसमापन पर ही कहा जा सकता है, कहलाता है:)

- a) Authorised Capital (अधिकृत पूजी) b) Issued capital (जारी पूजी)
c) Reserve capital (रिजर्व कैपिटल) d) Capital Reserve (कैपिटल रिजर्व)

279. In case of liquidation of company first payment is made in respect of : (कंपनी के परिसमापन के मामले में पहला भुगतान किसके संबंध में किया जाता है:)

- a) Legal Expense (कानूनी व्यय) b) Preferential Creditor (तरजीही लेनदार)
c) Liquidators remunerations (परिसमापक पारिश्रमिक) d) Liquidation expenses (परिसमापन खर्च)

280. The liquidator of a company is entitled to a remuneration of 2% on assets realised and 3% on the amount distributed to unsecured creditors. The assets realised Rs. 1,00,000 including cash balance of Rs. 3,000. Amount available for distribution to unsecured creditors before paying liquidator's remuneration was Rs. 46,350. The liquidator's will be : (एक कंपनी के परिसमापक को प्राप्त संपत्ति पर 2 प्रतिशत और उस पर 3 प्रतिशत के पारिश्रमिक का हकदार है असुरक्षित लेनदारों को विरित की गई राशि। संपत्ति की वसुली रु 1,00,000 के नकद शेष सहित रु 3,000। परिसमापक का भुगतान करने से पहले असुरक्षित लेनदारों को वितरण के लिए उपलब्ध राशि पारिश्रमिक रु 46,350 था। परिसमापक होगा:)

- a) Rs. 3,100 (रु 3,100) b) Rs. 3,330.5 (रु 3,330.5)
c) Rs. 3,140 (रु 3,140) d) Rs. 3,290 (रु 3,290)

281. If dividend on preference shares has been declared but is not paid. On liquidation dividend is paid as (यदि वरीयता शेयरों पर लाभांश घोषित किया गया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। परिसमापन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है जैसा।)

- a) Debt (ऋण) b) Arrears of Dividends (लाभांश के बकाया)
c) Preferential Creditors (तरजीही लेनदारों) d) Profit (लाभ)

282. When winding up of a company is made by the court, it is called (जब किसी कंपनी का परिसमापन न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो इसे कहा जाता है।)

- a) Creditors voluntary winding up (लेनदार स्वैच्छिक समापन) b) Liquidation under supervision of the court (न्यायालय की देखरेख में परिसमापन)
c) Voluntary liquidations d) Compulsory liquidation

(स्वैच्छिक परिसमापन)

(अनिवार्य परिसमापन)

283. A creditor for Rs. 10,000 holding a charge on the stock of the value Rs. 12,000 (market value Rs. 9,000) is :
(रु 10,000 के लिए एक लेनदार बुक वैल्यु रु 12,000 (बाजार मूल्य रु 9,000) के स्टॉक पर चार्ज रखता है।)
- a) Partly secured creditor (आंशिक रूप से सुरक्षित लेनदार) b) Fully secured creditor (पूरी तरह से सुरक्षित लेनदार)
- c) Preferential creditor (तरजीही लेनदार) d) Unsecured creditor (असुरक्षित लेनदार)
284. When a company is wound up, out of the unsecured creditors some have to be paid, under the law, before others. Such creditors are known as (जब कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो असुरक्षित लेनदारों में से कुछ को कानून के तहत भुगतान करना पड़ता है, दूसरों के सामने। ऐसे लेनदारों को के रूप में जाना जाता है।)
- a) Partly secured creditors (आंशिक रूप से सुरक्षित लेनदार) b) Unsecured creditors (असुरक्षित लेनदार)
- c) Preferential creditor (तरजीही लेनदार) d) Secured Creditors (सुरक्षित लेनदार)
285. Winding up of the company is : (कंपनी का समापन है:)
- a) By closure of business (व्यापार बंद करके) b) By sale of asset (संपत्ति की बिक्री से)
- c) By end of legal existence (कानूनी अस्तित्व के अंत तक) d) By Articles (लेखों द्वारा)
286. Under which section of the companies Act winding up is possible. (कंपनी अधिनियम की किस धारा के तहत समापन संभव है:)
- a) Sec. 425 (सेक. 425) b) Sec. 424 (सेक. 424)
- c) Sec. 423 (सेक. 423) d) Sec. 426 (सेक. 426)
287. Winding up by court is possible under section : (न्यायालय द्वारा परिसमापन धारा के तहत संभव है:)
- a) Sec. 484 (सेक. 484) b) Sec. 433 (सेक. 433)
- c) Sec. 425 (सेक. 425) d) Sec. 424 (सेक. 424)
288. For winding up by court it is essential to have : (न्यायालय द्वारा समापन के लिए आवश्यक है कि:)
- a) A general resolution (एक सामान्य संकल्प) b) Non-general resolution (गैर-सामान्य संकल्प)
- c) Resolution by general meeting (आम बैठक द्वारा संकल्प) d) Special resolution (विशेष संकल्प)
289. Among the following conditions in which condition is winding up possible ? (निम्नलिखित में से किस स्थिति में परिसमापन संभव है ?)
- a) If the company has not called up statutory meeting (अगर कंपनी ने वैधानिक बैठक नहीं बुलाई है)
- b) The life of the company has expired (कंपनी का जीवन समाप्त हो गया है)
- c) Members have passed a resolution for voluntary winding up (सदस्यों ने स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित पारित किया है)
- d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
290. On receiving of winding up orders from the court it is necessary to provide information to : (न्यायालय में समापन आदेश प्राप्त होने पर निम्नलिखित को सूचना प्रदान करना आवश्यक है:)
- a) to registrar (रजिस्ट्रार को) b) to Directors (निर्देशकों को)
- c) to Promoters (प्रमोटरों को) d) to Shareholders (शेयरधारकों को)
291. On declaration up the member's declaration given by the director is : (सदस्यों की घोषणा पर निदेशक द्वारा दी गई घोषणा है:)
- a) Business Progress Declaration b) Declaration of sloveny

- (व्यवसाय प्रगति घोषणा) (शोधन क्षमता की घोषणा)
- c) Declaration of winding up (समापन की घोषणा) d) Declaration of appointment of liquidator (परिसमापक की नियुक्ति की घोषणा)
292. In case winding up by the court the meeting of the creditors is called up : (न्यायालय द्वारा समापन की स्थिति में लेनदारों की बैठक बुलाई जाती है:)
- a) within two months from the date of winding up (समापन की तारीख से दो महीने के भीतर) b) within two months from the order of court (अदालत के आदेश से दो महीने के भीतर)
- c) within one month from the appointment of liquidator (परिसमापक की नियुक्ति से एक महीने के भीतर) d) Not essential to call meeting (बैठक बुलाने के लिए जरूरी नहीं)
293. Calls in arrears case of winding up is shown in : (वाइडिंग अप के मामले में एरर में कॉल को दिखाया गया है:)
- a) List E (सूची ई) b) List C (सूची सी)
- c) List A (सूची ए) d) List F (सूची एफ)
294. In case of winding up the assets specifically pledged are shown in : (विशेष रूप से गिरवी रखी गई संपत्तियों को बंद करने के मामले में दिखाया गया है:)
- a) List A (सूची ए) b) List B (सूची बी)
- c) List D (सूची डी) d) List G (सूची जी)
295. List related to creditor secured by floating charge : (फ्लोटिंग चार्ज द्वारा सुरक्षित लेनदार से संबंधित सूची:)
- a) List D (सूची डी) b) List C (सूची सी)
- c) List H (सूची एच) d) List E (सूची ई)
296. In case of winding up of the company the contingent liabilities are : (कंपनी के समापन के मामले में आकस्मिक देनदारियां हैं:)
- a) Preference creditors (वरीयता लेनदार) b) Secured creditors (सुरक्षित लेनदार)
- c) Unsecured creditors (असुरक्षित लेनदार) d) Partial secured creditors (आंशिक सुरक्षित लेनदार)
297. Secured creditors are Rs. 15,000, the realisable value of the assets kept as security is Rs. 20,000, the excess will be shown in : (सुरक्षित लेनदार रु 15,000 है, सुरक्षा के रूप में रखी गई संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य रु 20,000 है, अतिरिक्त में दिखाया जाएगा:)
- a) It will be added to the reasonable value of asset (इस संपत्ति के उचित मूल्य में जोड़ा जाएगा) b) It will be added to unsecured creditors (इसे असुरक्षित लेनदारों में जोड़ा जाएगा)
- c) Added in Deficiency (कमी में जोड़ा जाएगा) d) Decreased from liability (दायित्व से कमी)
298. Creditors are Rs. 8,000, value of asset kept as security is Rs. 6,000, the difference will be : (लेनदार रु 8,000 है, सुरक्षा के रूप में रखी गई संपत्ति का मूल्य रु 6,000 है, अंतर होगा:)
- a) Preference creditors (वरीयता लेनदार) b) Unsecured creditors (असुरक्षित लेनदार)
- c) Deficiency (कमी) d) Creditors having floating right (फ्लोटिंग अधिकार वाले लेनदार)
299. If the winding up of the company is on the order of court then the liquidator will present his statement for a specific period to : (यदि कंपनी का परिसमापन न्यायालय के आदेश पर है तो परिसमापक अपना विवरण प्रस्तुत करेगा, एक विशिष्ट अवधि के लिए:)
- a) Company (कंपनी) b) Court (कोर्ट)
- c) Company Law Board (कंपनी लॉ बोर्ड) d) Registrar (रजिस्ट्रार)
300. Among the following the payment will be made first to : (निम्नलिखित में से सबसे पहले भुगतान किया जाएगा:)
- a) Remuneration to the valuer (मूल्यांकक को पारिश्रमिक) b) Remuneration to liquidator (परिसमापक को पारिश्रमिक)
- c) Preferential creditors (अधिमान्य लेनदार) d) Statutory/legal expenses (वैधानिक/कानूनी खर्च)